

June 02,2023

The National Stock Exchange of India

"Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 051

(Scrip Code – SHIVAMAUTO)

The BSE Limited

Phiroje Jeejeebhoy Towers Dalal Street Fort Mumbai – 400 001

(Scrip Code - 532776)

Sub: Intimation of publication of notice for dispatch of postal ballot notice

Dear Sir,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of notice published in the following newspapers:

- Financial Express (National daily newspaper in English) on 2nd June,2023.
- Jan Satta (Regional daily newspaper in Hindi) on 2nd June, 2023

The Copy of results is enclosed herewith for your reference.

Thanking you

FOR SHIVAM AUTOTECH LIMITED

Preeti Digitally signed by Preeti Sharma Date: 2023.06.02 11:46:03 +05'30'

PREETI SHARMA COMPANY SECRETARY M.NO. A32847

Tel: 0124-4698700

Fax: 0124-4698798

FINANCIAL EXPRESS

lotice is hereby given that the following Share Certificate(s) Nos. for 115500 Equity Shares, bearing following Distinctive Numbers, in EITA India Ltd. having its registered office at 208, Abdul Hamid Street, 4th Floor, Kolkata - 700069 standing in the name(s) of M/s. Samyak Vanigya Pvt. Ltd. had been lost and that an application for the issue of duplicate(s) in lieu thereof ha

Share Certificate Nos.		Distinctiv	e Nos.	No. of Securities held
From	To	From	To	
15	16	102701	110700	8000
19	19	114701	116700	2000
25	25	130701	135700	5000
109	109	356201	359200	3000
18389	18389	2053600	2055199	1600
18389	18389	2068400	2070899	2500
18389	18389	2264200	2266699	2500
18389	18389	2268700	2276899	8200
18389	18389	2283000	2307699	24700
18389	18389	2319600	2324599	5000
18389	18389	2353900	2357999	4100
18389	18389	2375100	2392399	17300
18389	18389	2486300	2494599	8300
18389	18389	2506300	2509599	3300
18389	18389	2515800	2932499	16700
18389	18389	2572700	2575999	3300
	0.000000	300-301-3000		Total -: 115500

Agent - Niche Technologies Pvt. Ltd., 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata - 700 017 he Public are cautioned against dealing in any way with these shares. For Samyak Vanijya Pvt Ltd

DIN: 0694483

Sr.

APOLLO TYRES LTD

APOLLO TYRES LTD. Regd. Office: 3rd Floor, Areekal Mansion,

Panampilly Nagar, Kochi- 682036 (Kerala) (CIN-L25111KL1972PLC002449) Tel: +91 484 4012046 Fax: +91 484 4012048. Email: investors@apollotyres.com, Web: apollotyres.com

NOTICE

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This Notice is published pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended from time to time ("the Rules"). The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of unpaid or unclaimed dividend to IEPF Authority and transfer of shares in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more to IEPF Authority.

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the Rules for taking appropriate action(s). The Company has also uploaded complete details of the concerned shareholders whose dividends are lying unclaimed for seven consecutive years and whose shares are due for transfer to IEPF Authority on its websife at www.apollotyres.com under the "Investors/Shareholders information" section. Shareholders are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

Shareholders whose dividend is unclaimed for the financial year 2015-16 and onwards are requested to claim the unclaimed dividend within three months from the date of this notice by sending a formal letter duly signed by all the joint holders alongwith the copy of duly signed ISR Form 1, 2 & SH13 (Forms can be downloaded from https://ris.kfintech.com/ client services/isc/default.aspx - from Download Forms section) to KFIN Technologies Ltd (Unit:Apollo Tyres Ltd), Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, Telangana. The said application should reach the KFIN(Registrar) within three months from the date of this notice failing which the Company would initiate necessary action for transfer of shares to the IEPF Authority without any further notice, in accordance with the rules. Electronic Shareholders are requested to send a request letter along the letter received from KFIN and attach the Client Master List, Cancelled Cheque Leaf along with ID and Address Proof to KFIN, Hyderabad In the event of failure to claim the dividend before the time period

mentioned above, new share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF Authority on completion of necessary formalities if shares are held in physical form. Hence, the original share certificate(s), which stand registered in shareholders name, will be deemed as cancelled. If shares are held in Demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in demat account in favour of IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF Authority. Shareholders may note that both the unclaimed dividend amount and the shares transferred can be claimed from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed form IEPF-5 available at www.iepf.gov.in and by sending the physical copy of the same duly signed along with the requisite documents to the Registrar at the above-mentioned

In case Shareholders have any queries, they may contact the Company's Registrar at KFIN Technologies Limited, Unit: (Apollo Tyres Ltd), Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, Telangana. Contact No. Tolf-Free No.18003094001, Tel. No. 04067162222, Email Address: einward.ris@kfintech.com

For Apollo Tyres Ltd

Seema Thapar

Date: June 1, 2023 Place: Gurugram

Company Secretary & Compliance Officer



GILLANDERS ARBUTHNOT AND COMPANY LIMITED Registered Office: C-4, Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001

CIN: L51909WB1935PLC008194, Website: www.gillandersarbuthnot.com

Telephone: 033-2230-2331, Fax: 033-2230-4185 E-mail: secretarial@gillandersarbuthnot.com

NOTICE OF THE 89TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 89th Annual General Meeting ("AGM")

of the Members of the Company will be held on Friday, the 23rd day of June, 2023 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") Facility ONLY, without physical presence of members, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with MCA & SEBI Circulars issued from time to time in this regard.

In compliance with the above Circulars, copy of the Notice convening the AGM including necessary instructions for attending the AGM and remote e-Voting has already been sent through e-mails to the members whose e-mail id's are registered. The said Notice and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 is also available on the Company's website in the 'Investors' section at www.gillandersarbuthnot.com, additionally on the websites of Stock Exchanges viz. www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL") at www.evoting@india.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI LODR, the Company is providing its Members the facility of remote e-Voting before/during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means. The facility of electronic voting shall also be made available during the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-Voting facility.

The period of remote e-Voting shall start on Tuesday, 20th June, 2023 from 9:00 A.M. (IST) and end on Thursday, 22nd June, 2023 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of members/beneficial owners as on the cut-off date i.e. Friday, 16th June, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or e-Voting at the AGM.

The manner of remote e-voting for members holding shares in electronic mode, physical mode and for the members who have not registered their e-mail id's is provided in the Notice convening the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member after the Company sends the Notice of the AGM by e-mail and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending a request to the Company's e-mail id at secretarial@gillandersarbuthnot.com. However, if you are already registered with CDSL for remote e-Voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evotingindia.com. The detailed procedure for obtaining user ID

CS Ashok Daga, Practising Company Secretary, (FCS - 2699, CP NO. 2948), has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before/during the AGM in a fair and transparent manner.

and password is provided in the Notice convening the AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th June, 2022 to 23rd June, 2023 (both days inclusive).

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-Voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

Place: Kolkata

Date: 1st June, 2023

financialexp.epa

For Gillanders Arbuthnot And Company Limited

Rajat Arora Company Secretary & Compliance Officer

LLB & Company Secretary], failing him, Mr. Obaidur Rahman, Principal Associate [B.Com (H). LLB & Company Secretary], both of M/s. Kochhar & Co., Advocates and Legal Consultants having its office at 11th Floor, Tower A, DLF Towers, Jasola District Center, Jasola, New Delhi - 110025, as the Scrutinizer, for scrutinizing the process of Postal Ballot (remote e-voting) in a

The Members of the Company whose names appear in the Registrar of Members / List of Beneficial Owners as on Friday, May 26, 2023 as received from the Depositories i.e. CDSL & NSDL [including those Members who may not have received the Notice due to non-registration of the e-mail addresses with the Company / the Registrar and Share Transfer Agent (M/s. Link Intime India Private Limited, C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083) / the Depositories], shall only be entitled to vote in relation to the resolutions specified in the Notice. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the names of the Members as on May 26, 2023 ("cut-off date"). A person who is in receipt of the Notice but was not a member on the cut-off date should treat the Notice for information purposes

The results of Postal Ballot shall be declared on or before Tuesday, July 4, 2023, by 5:00 P.M. (IST) by the Chairman of the Board or in his absence, by such Director/KMP of the Company duly authorised in this regard and the results declared will be displayed along with the Scrutinizer's Report at the Registered Office of the Company in Kolkata and at the Corporate Office of the Company in Gurugram at Bata House, 418/02, M. G. Road, Sector-17, Gurugram - 122002, Haryana and will also be uploaded on the website of the Company (www.bata.in) and on the e-voting website of NSDL (www.evoting.nsdl.com) and will also be simultaneously forwarded to the Stock Exchanges (the National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and The Calcutta Stock Exchange Limited) where the equity shares of the Company are listed, thereby enabling them to disseminate the same on their respective websites.

Members holding shares in physical mode and whose e-mail addresses are not registered, may cast their votes through e-voting system, after registering their e-mail addresses by sending the following documents to the Company at share.dept@bata.com or to the RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in:

i. Scanned copy of a signed request letter, mentioning the name, folio number & number of shares held and complete postal address;

Self-attested scanned copy of PAN Card; and

iii. Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAAR card / latest Electricity Bill / latest Telephone Bill / Driving License / Passport / Voter ID Card / Bank Passbook particulars) in support of the postal address of the Member as registered against their shareholding.

Members holding shares in the demat mode should update their e-mail addresses directly with their respective Depository Participants.

Members who have not registered their e-mail addresses either with the Company, its RTA or the Depositories and wish to receive the Postal Ballot Notice and / or cast their votes through remote e-voting may also write to the Company at share.dept@bata.com or to the RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or to NSDL at evoting@nsdl.co.in and obtain their User ID and Password for remote e-voting by sending the following documents:

Scanned copy of a signed request letter mentioning their name and DP ID and Client ID /

ii. Self-attested scanned copy of PAN Card; and

ID: share.dept@bata.com

Place : Gurugram

Date : June 1, 2023

iii. Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAAR card / latest Electricity Bill / latest Telephone Bill / Driving License / Passport / Voter ID Card / Bank Passbook particulars) in support of the postal address of the Member as registered against their shareholding.

The Company has additionally provided the facility to the Members to temporarily update their

email addresses by accessing the link https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html for the limited purpose of receiving shareholder communications including the Notice. It is clarified that for permanent registration of e-mail addresses, the Members are, however, requested to register their e-mail addresses, in respect of electronic holdings with the

In case of any query / grievance (including any technical assistance required with respect to remote e-voting). Members may refer to the Frequently Asked Questions for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available under the Download section of NSDL's

Depositories, through the concerned Depository Participants.

e-voting website (www.evoting.nsdl.com) or contact: Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai

400013 at telephone nos. 022 - 4886 7000 / 022 - 2499 7000 or at e-mail ID: evoting@nsdl.co.in; ii. Mr. Dipankar De, Manager - Investor Services, at telephone no. 033 - 2289 5796 or at e-mail

For further details, please visit www.bata.in or the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed.

NITIN BAGARIA

SURYA FUNCITY LIMITED Regd. Office: SCO 1086-87, Sector 22B, Chandigarh-160022

31-03-2023

(Audited)

103.39

-181.82

-227.14

-16.51

473.93

-4.79

Quarter Ended Quarter Ended Year Ended

31-03-2022

(Un-audited)

50.64

-84.62

-84.62

0.00

473.93

-1.79

(Rs. in Lacs except per equity shares data)

For Surya Fun City Limited

Sd/- Kamaljeet Singh

Managing Director

31-03-2023

(Audited)

1061.60

388.40

343.08

-16.51

473.93

498.25

7.24

E-mail: funcitysurya@yahoo.com, Ph: 0172-2709539

CIN: L74999CH1993PLC013306

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly Financial Results filed with the Bombay Stock

The figures for the guarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of the full

BATA INDIA LIMITED

CIN: L19201WB1931PLC007261

Registered Office: 27B, Camac Street, 1st Floor, Kolkata - 700016, West Bengal

Telephone: +91 33 2301 4400 | Fax: +91 33 2289 5748

E-mail: share.dept@bata.com | Website: www.bata.in

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given, in accordance with Sections 108, 110 and other applicable provisions, if

any, of the Companies Act, 2013 (as amended) (the "Act"), read with the Companies (Management

and Administration) Rules, 2014 (as amended), the General Circulars, issued by the Ministry of

Corporate Affairs (the "MCA"), bearing No. 14/2020, No. 17/2020, No. 22/2020, No. 33/2020, No.

39/2020, No. 10/2021, No. 20/2021, No. 3/2022 and No. 11/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020,

June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 8, 2021, May

5, 2022 and December 28, 2022 respectively (collectively the "MCA Circulars"), Revised Secretarial

Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the ICSI, that the Company has on Thursday, June

2023 completed the transmission of the Notice of Postal Ballot (e-voting) dated April 25, 2023 (the

"Notice") (also available on the Company's website - www.bata.in and on the website of NSDL -

www.evoting.nsdl.com) by e-mail to the Members whose e-mail addresses are registered, for seeking

Independent Director of the Company, liable to retire by rotation

Place of keeping the Register of Members, etc. of the Company

In terms of Sections 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Act read together with the rules made thereunder, the MCA Circulars and in compliance with Regulation 44 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the

Company is pleased to offer remote e-voting facility to all the Members of the Company. The

Company has appointed NSDL for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The physical copy of the Notice, postal ballot forms and postage pre-

paid reply envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot in accordance with the

MCA Circulars. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members would

The said remote e-voting facility will commence on Friday, June 2, 2023 (9:00 A.M. IST)

and will end on Saturday, July 1, 2023 (5:00 P.M. IST). Members are requested to cast their

votes through the remote e-voting not later than 5:00 P.M. IST on Saturday, July 1, 2023 to be

eligible for being considered, failing which it will be strictly considered that no vote has been

received from the concerned members. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Gagan Verma, Partner [B.Com (H)]

Brief Description

Appointment of Mr. Anil Ramesh Somani (DIN: 10119789) as a Director of the

Appointment of Mr. Anil Ramesh Somani (DIN: 10119789) as a Whole-time Director

Appointment of Mr. Ravindra Dhariwal (DIN: 00003922) as a Non-Executive Non-

Re-appointment of Mr. Ashok Kumar Barat (DIN: 00492930) as an Independent

Payment of remuneration for the financial year 2022-23 to Non-Executive Directors

consent to the following Special Businesses to be transacted by means of Postal Ballot (e-voting):

Company, liable to retire by rotation

Director of the Company

take place through remote e-voting only.

of the Company and fixing his remuneration

(including Independent Directors) of the Company

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full

format of the Quarterly Financial Result are available on the website of the Stock Exchange- www.bseindia.com and the

financial year and unaudited published figures in respect of the financial results upto the third quarter of the respective

Particulars

Net Profit/(Loss) for the period (before Tax)

Total Comprehensive Income for the period

and other Comprehensive Income (after tax)

[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown

Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing

in the Audited Balance Sheet of the previous year

and discontinued operations) - (not annualized) -

Net Profit/(Loss) for the period (after Tax)

Total Income from Operations

Equity Share Capital

Basic & Diluted:

financial year.

Bata

Type of

Resolution

Ordinary

Ordinary

Ordinary

Special

Special

Special

It is also hereby informed that:

for voting thereafter.

fair and transparent manner.

No.

Place: Chandigarh

Date: 29.05.2023

listed entity-www.funcitysurva.com

SHIVAM AUTOTECH LTD

SHIVAM AUTOTECH LIMITED CIN: L34300HR2005PLC081531

Registered Office: 10, 1st Floor, Tower-A, Emaar Digital Greens, Sector-61, Golf Course Extension Road, Gurugram, Haryana-122102 Tel: 0124-4698700; Fax: 0124-4698798 Email id: info@shivamautotech.com; Website: www.shivamautotech.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if

any, of the Companies Act, 2013, ('the Act') (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') and the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India, each as amended, and in accordance with the requirements prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide its General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 8, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), to transact the special business as set out hereunder by passing Special Resolution, by way of postal ballot only by voting through electronic means (remote e-voting): Types of Resolutions

No. Resolutions Appointment of Mr. Yogesh Chander Munjal (DIN: 00003491) as Non-Executive Director Special designated as Chairman of the Company, for a term of five (5) years commencing from 25th May, 2023 Special Change in Designation of Mr. Anil Kumar Gupta (DIN: 02643623) from Non-Executive Director to Independent Director of the Company, for a term of five (5) years commencing from 25th May.2023

and on the websites of the Stock Exchanges viz. BSE Limited ('BSE') and The National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com. In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Company has sent the Notice on 31st May, 2023, only in electronic form to those Members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from MCS Share Transfer Agent Limited, the Company's Registrar and Transfer Agent ('RTA') / Depositories as on Friday, 26th May, 2023 ('Cut-Off date') and whose email addresses are registered with the Company/ RTA / Depository Participants (in case of electronic shareholding) or who will register their email address in accordance with the process outlined in the Notice. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope has not been sent to the

The Notice of Postal Ballot ('Notice') is available on the website of the Company at www.shivamautotech.com

The Company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility to its Members and the communication of assent or dissent of the Members would only take place through the remote e-voting system. The remote e-voting period commences on Monday 5th June, 2023 at 9:00 a.m. (IST) and shall end on Tuesday, 4th July, 2023 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date. Once vote on a resolution is cast, the Member will not be able to change it subsequently. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the List of Beneficial Owners as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or the grievances can be addressed to the Company Secretary at the registered office of the Company or at cs@shivamautotech.com.

The Board of Directors has appointed Ms. Meenu Sharma (Membership No. FCS 10882, CP No. 20929). Proprietor of M/s Meenu Associates, Practicing Company Secretaries, to act as a Scrutinizer to conduct the postal ballot voting process in a fair and transparent manner

After completion of scrutiny of the votes cast, the Scrutinizer will submit her report to the Chairman of the Company or any other person authorized by him. The results of the Postal Ballot conducted through remote e-voting along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at www.shivamautotech.com, the website of CDSL www.evotingindia.com and communicated to BSE and NSE on their respective websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com, where the ordinary shares of the Company are listed within the stipulated timelines. The results will also beplaced on the Notice Board at the Registered Office of the Company.

For Shivam Autocech Limited

Place: Gurugram Date: June 01, 2023

Members for this Postal Ballot.

Preeti Sharma Company Secretary & Compliance Officer Membership No. A32847



SULA VINEYARDS LIMITED

Regd. Off: 901 Solaris One N.S. Phadke Marg, Andheri (E) Mumbai - 400069; Tel No.: (022) 61280606 E-mail: cs@sulawines.com; website: https://sulavineyards.com; CIN: L15549MH2003PLC139352

NOTICE OF 20[™] ANNUAL GENERAL MEETING AND

INFORMATION ON REMOTE E-VOTING Members of the Company are hereby informed that 20" Annual General Meeting ("AGM"/"Meeting") of Sula Vineyards Limited

("the Company") will be convened at 11:00 a.m. (IST) on Friday, June 23, 2023, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means (OVAM) facility provided by the National Securities Depository Limited ("NSDL") to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM dated May 31, 2023. The 20th AGM is being held in compliance of all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with the General Circular Nos. 20/2020 and 10/2022 dated 5th May 2020 and 28" December 2022, respectively, and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India in this regard (hereinafter collectively referred to as "Circulars"). The deemed venue for the 20" AGM shall be the Registered Office of the Company. As this meeting is being held through VC/ OVAM, physical presence of the members at the venue is In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the 20" AGM and the Annual Report for the financial year

2022- 2023 have been sent by email to all those members, whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s). The instructions for joining the 20" AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 20" AGM are provided in the Notice of the 20" AGM. Members participating in the 20" AGM through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. June 16, 2023 may cast their vote

electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 20" AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of the NSDL

All the members are informed that:

- the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 20° AGM will be transacted through voting by electronic means;
- (ii) the remote e-Voting shall commence on Tuesday, June 20, 2023 at 9:00 A.M. IST;
- (iii) the remote e-Voting shall end on Thursday, June 22, 2023 at 5:00 P.M. IST; (iv) the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 20th AGM,
- (v) any person who becomes member of the Company after dispatching the Notice of the 20th AGM by email and holding shares as on
- the cut-off date i.e. June 16, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@sulawines.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote: (vi) Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and
- once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 20th AGM may participate in the 20th AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 20" AGM; c) members participating in the 20" AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 20" AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participation in the 20th AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 20" AGM;
- (vii) the Notice of the 20" AGM and the Annual Report for the year 2023, are available on the websites of the Company at https://sulavineyards.com/, BSE Limited (www.bseindia.com), and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on website of the NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.
- (viii) in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4" Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos. 022-48867000 and 022-24997000, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address cs@sulawines.com; and
- (ix) those members holding shares in physical form and/or whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address with the Company to obtain the Notice the 20" AGM, Annual Report and/or login details for joining the 20" AGM through VC/OAVM facility including e-voting, or any future communication, by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of AADHAR Cardin support of the address of the member as registered with the Company, by email to cs@sulawines.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.

The record date for determining entitlement of members to the final dividend for the financial year ended March 31, 2023, if approved at the 20th AGM, was May 15, 2023, which is proposed to be paid on and from June 24, 2023.

In the event the Company is unable to pay the dividend to any member directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate or for any other reasons, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Banker's cheque/ demand draft to such members at their registered address, as soon as possible.

Individual notices and reminders have been sent to the members of the Company to furnish their PAN, KYC details and Nomination as per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 03rd November 2021 ("SEBI Circular"). Members are requested to furnish their PAN, KYC details and Nomination on or before October 01, 2023 to ensure that their folio(s) are not frozen by the Company's Registrar and Share Transfer Agents as per the SEBI Circular and they continue to receive all corporate benefits including dividend(s).

For Sula Vineyards Limited

Date: June 01, 2023

Place: Mumbai

Ruchi Sathe Company Secretary & Compliance Officer

New Delhi

Company Secretary & Compliance Officer

For BATA INDIA LIMITED

फीनिक्स एआरसी प्राइबेट लिमिटेड अधिग्रहण पंजीकृत कार्यालयः 5वां तल, दानी कॉर्पोरेट पार्क, 158, सूचना सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुज (पू.), मुंबई — 400098

एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई23—10 के ट्रस्टी रूप में कार्यरत्) (फीनिक्स) के अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां नीच^{ें} विवरणितानुसार उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटरों को मांग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों को उक्त सूचनाओं में अंकित राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 (साट) दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता, गारंटरगण निम्नांकित निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं. अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं. सह—उधारकर्ताओं. गारंटरों को तथा जनसाधारण को सचित किया जाता है कि कंपनी के प्राधिकत अधिकारी ने यहां नीचे विवरणित संपत्ति का. उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, सूचनाओं में अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटरों को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन—देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन. वहां उन सूचनाओं में विनिर्दिष्ट राशि तथा उस राशि पर संबंधित तिथियों से आकलित भावी ब्याज, लागतों एवं शुल्कों हेतु फीनिक्स के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों, बंधककृत संपत्तियों, ट्रस्ट का नाम, बकाया देयराशियों, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचनाओं तथा वहां उनमें उनके तहत अभ्यर्थित धनराशियों के विवरण यहां निम्नानुसार प्रस्तृत हैं:

उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण राशि	प्रतिभूतियों के विवरण	 माग सूचना तिथि अधिग्रहण की तिथि देय राशि रु. में
 तीपक वर्मा एस/डी/डब्ल्यू — मनोज कुमार वर्मा, 7 रामायण बिहार स्टेडियम रोड आशापुरम बरेली, 243122 ज्योति वर्मा एस/डी/डब्ल्यू — जय प्रकाश वर्मा, 7 रामायण विहार स्टेडियम रोड आशापुरम बरेली, 243122 ऋण खाता संख्याः HM/0100/H/19/100056 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1516688.00 (रुपये पंद्रह लाख सोलह 	तथा अंश, जो बिहारीपुर कहरवां पार, तहसील और जिला बरेली हाउस, मकान सं. 361 का भाग, जिसकी माप 43.478 वर्ग मीटर है, और इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्व— मकान भूपेन्द्र सिंह, पश्चिम— कस्तूरबा खुल्बे का मकान, उत्तर— रास्ता गली 6 फुट, दक्षिण—	2. अधिग्रहण की तिथि— 27.05.2023 3. रु. 15,73,223.19 / — (रुपये पंद्रह लाख तिहत्तर हजार दो सौ तेईस एवं उन्नीस पैसे मात्र) जो 23.05.2022 के अनुसार पूर्ण भुगतान होने तक लागतों एवं शुल्कों के साथ 14 प्रतिशत वार्षिक की दर पर प्रयोज्य भावी ब्याज के साथ
हजार छह सौ अड्डासी मात्र) स्थान : बरेली (ज.प्र.) दिनांक : 02—06—2023	कृते फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड	प्राधिकृत अधिकारी (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई23—10 के ट्रस्टी)

क्र. ऋण खाता

पंजी, कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

बंधक सम्पत्ति

प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

नाम और पता

हरिद्वार शास्त्रा कार्यालय : पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दिल्ली हरिद्वार मेन रोड, अरबिंदो आश्रम के आगे, रानीपुर मोड़, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार - 249407

देहरादून शाखा: - पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दुकान नं. 301 एवं 302 लक्ष्मी चेम्बर्स 69, राजपुर रोड, देहरादून - 248001 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आर्ग "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय ।।। की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदारों / सह-कर्जदार / गारंटरों को जारी की गई थीं, क्योंकि आपका खाता, किस्तों / ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, व्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चुकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सुचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सुचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की घारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतदद्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, इस मांग सुबना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के मीतर पीएनबीएवएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्यामूत आस्तियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्यामृत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझीते द्वारा प्रत्याभृत आरितयों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भूगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभत आस्तियों की बिक्री की सचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है. तो आप उसके पश्चात प्रत्याभत आस्ति(या) छडाने के हकदार नहीं होंगे। आगे आप के ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पटटा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

1.	HOU/DEH /0419/67 8810 बी.ओ.: देहरादून	स्तः श्री सोंडन सिंड के सभी कानूनी उत्तराधिकारी (उधारकर्ता), श्री सौरम सिंड (सह-उधारकर्ता), श्रीमती विमला देवी (सह- उधारकर्ता) पता 1— टाइप 1, कचहरी रोड, स्टाफ क्वार्टर, दून हॉस्पिटल कॉलोनी, देहरादून— 248001, पता 2—14/2, इंद्रा कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड—248001, मारत, पता 3—दून हॉस्पिटल, टाइप 1, दून हॉस्पिटल कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड —248001, मारत, पता 4— खसरा नं 676, भीजा माखंम ग्रांट फर्सट, परगना परवादून, तहसील डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड, भारत, 248001	NA	खसरा नं 676, मीजा मार्खम ग्रांट फर्स्ट, परगना परवादून, तहसील डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड, भारत—248001	15.05.2023	15.05.2023 तक रु. 17,39,025.02 (रुपये संत्रह लाख उनतालीस हजार पच्चीस एवं दो पैसे मात्र)
2.		श्री कुलदीप सिंह (उघारकर्ता), श्री मनोज (सह-उघारकर्ता), पता 1- बीसी 1, ग्राम दादूपुर, गोविंदपुर, बहाझाबद, हरिद्वार, उत्तराखंड- 249402, भारत, पता 2- इशाकपुर, वाजिदपुर नागल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश -247561, भारत, पता 3- आदर्श इंडस्ट्रियल सर्विसेज, बीसी 1, दादूपुर गोविंदपुर, बहादराबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड-249402, भारत, पता 4- प्लॉट नं 93, खसरा नं 162, राधिका एन्क्लेव गांव मनोहरपुर, परगना ज्वालापुर तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत-249407	NA	प्लॉट नं 93, खसरा नं 162, राधिका एन्क्लेव में स्थित, ग्राम मनोहरपुर, परगना ज्वालापुर तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत-249407	15.05.2023	21.04.2023 तक रू. 10,89,795.78 (रुपये दस लाख नवासी हजार सात सी पंचानवे एवं अठहत्तर पैसे मात्र)
3.	HOU/DEH /0719/73 2474 बी.ओ.: देहरादून		NA	खसरा नं 5107, मीजा बाबूगढ़, परगना पछवादून, नगर पालिका परिषद के तहत, तहसील विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड 248198	21.04.2023	21-04-203 तक रु. 16,45,276.73 (रुपये सोलह लाख पैतालीस हजार दो सी छिडत्तर एवं तिहत्तर पैसे मात्र)
4.	HOU/HW R/0222/9 53779 बी.ओ.: हरिद्वार	श्री कुलदीप सिंह (उधारकर्ता), श्रीमती संतोष कुमारी (सह— उधारकर्ता), पता 1— सी/ओ शशि प्रपाश सिंह, केदारपुरम कॉलोनी, गांव खेडी, बेगमपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड — 249402, भारत, पता 2— गांव कुदरिया, पोस्ट कुम्हल, मोगांव, मैनपुर, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश — 224149, भारत, पता 3— श्री गणेश मेटल्स, प्लॉट नं एल 16, इंडस्ट्रियल पार्क ॥, सलेमपुर महदूद, हरिद्वार, उत्तराखंड — 249402, भारत, पता 4— आवासीय मकान, प्लॉट नं 5 का हिस्सा, खसरा नं 43/2 विलेज बेगमपुर परगना रुड़की, म्युनिसियल सीमा के बाहर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, 249401	NA	आवासीय मकान, प्लॉट नं 5 का हिस्सा, खसरा नं 43/2 विलेज बेगमपुर परगना रुड़की, म्युनिसिपल सीमा के बाहर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249401	21.04.2023	21-04-2023 तक रु.17,77,735.15 (रुपए सत्रह लाख सतहत्तर हजार सात सी पैतीस एवं पंद्रह पैसे मात्र)

SHIVAM AUTOTECH LTD

इहराद्न, दिनांकित : 02-06-2023

कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता

शिवम ऑटोटेक लिमिटेड

सीआईएनः L34300HR2005PLC081531 पंजीकृत कार्यालयः 10, पहली मंजिल, टावर-ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर-61,

गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा - 122102; टेलीफोन: 0124-4698700; फैक्स: 0124-4698798

ई-मेलः info@shivamautotech.com; वेबसाइटः www.shivamautotech.com

डाक मतपत्र की सूचना एवं रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 के साथ पठित धारा 108 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी वैधानिक संशोधन(ओं) अथवा तत्समय उनके पुनः अधिनियम सहित) के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियमन 20 एवं 22, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियमन 44 तथा, इंस्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सेक्रेटेरियल स्टैण्डर्ड-2, प्रत्येक यथा-संशोधित, तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर, 2020, 23 जून, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022 एवं 28 दिसम्बर, 2022 (सामूहिक तौर पर 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, यहाँ निर्दिष्ट संकल्प के डाक मतपत्र के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करके (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा पारित करने हेतु विशेष व्यवसाय का संचालन करने हेतु एतद् द्वारा सूचना दी जाती है:

क्र. संख्या	संकल्पों के प्रकार	संकल्प
1.	विशेष	श्री योगेश चंदर मुंजाल (डीआईएन: 00003491) की गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कम्पनी के अध्यक्ष के रूप में 25 मई, 2023 से के प्रभाव से पांच (5) वर्षों की अवधि हेतु नियुक्ति
2.	विशेष	श्री अनिल कुमार गुप्ता (डीआईएन: 02643623) के गैर-कार्यकारी निदेशक से कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर 25 मई, 2023 से के प्रभाव से पांच (5) वर्षों की अवधि हेतु पदनाम में परिवर्तन

डाक मतपत्र सूचना (सूचना) कम्पनी की वेबसाइट पर www.shivamautotech.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') एवं द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') www.bseindia.com एवं www.nseindia.com क्रमशः पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी ने 31 मई, 2023 को सुधना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित की है जिनके नाम एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजेंट ('आरटीए') / डिपॉजिटरी, से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शुक्रवार, 26 मई, 2023 ('कट-ऑफ़ तिथि') को शामिल हो तथा जिनके ईमेल पते कम्पनी/ आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिमागियों (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारिता के मामले में) के साथ पंजीकृत हों या जो सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करेंगे। तदनुसार, इस डाक मतपत्र हेतु सदस्यों को सूचना की भौतिक प्रति के साथ ही डाक मतपत्र फॉर्म एवं प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे के नहीं भेजे गए हैं।

कम्पनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं तथा सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार 5 जून, 2023 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगी और मंगलवार, 4 जुलाई, 2023 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा एवं सदस्यों को उक्त तिथि और समय के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में होंगे। एक बार किसी संकल्प पर मतदान हो जाने के पश्चात, सदस्य बाद में इसे बदल नहीं सकेंगे। केवल वे सदस्य जिनके नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में अथवा कट-ऑफ तिथि के अनुसार लाभार्थी स्वामियों की सुची में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने हेतु अधिकृत होंगे।

यदि आपके पास ई-वोटिंग से सम्बंधित कोई प्रश्न अथवा समस्या है, तो आप <u>www.evotingindia.com</u> पर सहायता अनुभाग के अन्तर्गत उपलब्ध 'फ्रीक्वेंटली आरक्ड क्वेश्चन' ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या शिकायतों को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय या cs@shivamautotech.com पर कम्पनी सचिव को संबोधित कर सकते हैं।

निदेशक मंडल ने सुश्री मीनू शर्मा (सदस्यता सं. एफसीएस 10882 सीपी सं. 20929), मैसर्स मीनू एसोसिएट्स की प्रोपराइटर, संव्यावसायिक कम्पनी सेक्रेटरी को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया का संचालन करने हेतु संवीक्षक के तीर पर नियुक्त किया है।

डाले गए वोटों की जांच पूर्ण होने के पश्चात संवीक्षक कम्पनी के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किए गए डाक मतपत्र के परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.shivamautotech.com, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध कराए जाएंगे तथा बीएसई एवं एनएसई, जहाँ कम्पनी के साधारण शेयर सूचीबद्ध हैं, को उनकी संबंधित वेबसाइटों अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com को, निर्धारित समयसीमा के अन्दर, सूचित किया जाएगा। परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किए जाएँगे।

कृते शिवम ऑटोटेक लिमिटेड हस्ता./-

कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

प्रीती शर्मा

स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 1 जून, 2023

गुमशुदा की तलाश

सर्व साधारण को सचित किया जाता है कि यह महिला जिसका नाम अदिति, पुत्री निरंजन, पता-गली नं. 12, शिव मंदिर वाली, गांव वजीराबाद दिल्ली, जोकि 16.05.2023 से लापता है। इस संबंध में डीडी संख्या 137ए. दिनांक 16.05.2023. को पुलिस थाना वजीराबाद, दिल्ली, में दर्ज की गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा इस लापता महिला की तलाश करने की कोशिश की गयी है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया।

इस लापता महिला का विवरण इस प्रकार है :



लिंग : स्त्री, उम्र : 22 वर्ष, कद : 5'2", रंग : गोरा, चेहरा : लंबा, शरीर : सामान्य, आईडी मार्क : दाहिने गाल पर तिल, पहनावा : मैरून टी-शर्ट और प्लाजो, पैरों में चप्पल।

इस गुमशुदा महिला के बारे में यदि कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित को सचित करें:

ई-मेल : cic@cbi.gov.in थाना प्रभारी फोन: 011-24368638, 24368641 पुलिस थाना वजीराबाद, दिल्ली फैक्स : 011-24368639 फोन नं. : 8750870131 इ-मेल : sho.wazirabad@delhipolice.gov.in DP/5803/N/2023

एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में यूटी लीजिंग किमिटेड के नाम से जाना जाता था) CIN: U74899DL1994PLC058369

रंजीकृत कार्यांतवः ७/१७ एल.जी.एक., नजदीक होज जास नेट्रो स्टेशन, सर्वप्रिया विहार, नई दिल्ली—110016 टेली फोन: 011-48028698 ईनेल आईडी: compliance@exclusivecapital.in एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड के नियंत्रण / प्रबंधन में परिवर्तन पर सार्वजनिक सूचना **यह सुमना** आम जनता के लिए एक्सक्लुसिव कैंपिटल लिमिटेड (पूर्ववर्ती यूटी लीजिंग लिमिटेड), कंपनी

हींपनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक गैर-वैकिंग वित्तीय कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय र∕17 एल.जी. एक., नजदीक हाँज खास मेट्रो स्टेशन, सर्वप्रिया विहार, नई दिल्ली-110016 में हैं एवं CIN U74899DL1994PLC058369 है और जो चारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की घारा 45 आईए के तहत गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग विलीय कंपनी (एनबीएकसी-एनबी-एनसआई) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत हैं और पंजीकरण प्रमाणपत्र सं बी-14.02703 दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 धारक है **("कंपनी")** और सुश्री कांता अग्रवाला **("सेयस्थारक")** और श्री ओम प्रकाश समभारिया **("प्रस्तावित पूर्णकातिक निदेशक एवं सीर्युओ")** द्वारा संयुक्ता रूप से जारी की जाती है। जिसमें जाम जनता वह नोट कर सके कि शेवरधारक कंपनी के शेवरों को प्राप्त करने के इच्छुक हैं और एक या एक से अधिक किश्तों में कंपनी में धन जमा करने पर विवार कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण मे परिवर्तन होगा। इसके अलावा, कंपनी श्री ओम प्रकाश रामगारिया को कंपनी के प्रस्तावित पूर्णकालिक नियेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त करने की इच्छुक हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रवंधन में परिवर्तन होगा। इस संबंध में कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना सं. मास्टर निर्देश एनबीआर.पीडी.007/03.10.119/2016-17 **(एनबीएफसी निर्देश'')** के माध्यम से गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जगा स्वीकार करने वाली गैर-वैंकिंग वैलीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैरा 61, 62, 63 एवें 64 के प्रावधानों के अनुसरण में अपने पत्र दिनांक 30 मई. 2023 के मध्यम से अनिवार्य पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। नियंत्रण और प्रबंधन में बदलात का कारण पूंजी बढ़ाने के लिए कंपनी की योजना और ऋण देने के कारोबार में विविधता लाने के लिए प्रबंधन की मंशा के कारण है। यह सार्वजनिक सुबना नियंत्रण∠प्रबंधन में परिवर्तन

के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक हारा जारी एनबीएफसी निर्देशों के प्रोक्यानों के अनुपालन में प्रकाशित की गई है। इस संबंध में किसी मी प्रकार के स्पष्टीकरण और/या आपत्ति को श्री इरविन्दर सिंह, कंपनी सविव, 7/17 एल.जी.एफ., डौंज खारा मेट्रो स्टेशन के नजदीक, शर्वप्रिया विहार, नई दिल्ली-110016 या ई-मेल company.secretary@exck.sivecapital.in पर एक प्रति के लाथ इस सूचना की विथि से 30 (तीश) दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में मेजा जा सकता है।

एक्सक्तुसिव कैपिटल लि के लिए
इस्ता /- कंपनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली विथिः 01.06.2023
ई ने सः company.secret exclusivecapital.in

मांग सचना के

की तिथि अनुसार बकाया राशि

मिटेंड शेवस्थारक के लिए हस्ता ∕− कांता अग्रवाला स्थानः नई दिल्ली तिष्यः 01.06.2023 ईनेखः sahul@sahulgroup.com

प्रस्तावित पूर्णकालिक निदेशक एव सीईओ के लिए श्री जोन प्रकाश साम्मरिया स्थानः नई विल्ली तिथिः 01.06.2023 ई ने ल: opsambharia@exclusive

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(घारा 82 सीआर.पी.सी. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **विनय मल्होत्रा (मालिक) एम.एस**. इंटरप्राइजेज, निवासी 13. शाम मार्केट, 1520–21, फराश खाना एस.एन. मार्ग, दिल्ली यहां भी 9/1241, सुभाष रोड गांधी नगर, दिल्ली ने **केस रजि. नं**. 15764/2016 धारा138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत थाना नॉर्थ रोहिणी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त विनय मल्होत्रा (मालिक) एम.एस. इंटरप्राइजेज मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त विनय मल्होत्रा (मालिक) एम.एस. इंटरप्राइज़ेज़ फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि केस रजि. नं. 15764/2016 धारा138 नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट्स एक्ट के तहत थाना नॉर्थ रोहिणी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त विनय मल्होत्रा (मालिक) एम.एस. इंटरप्राइजेज से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 06.07.2023 को या इससे पूर्व हाजिर हो। आदेशानुसार

मानसी मलिक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (उत्तर-पश्चिम) कमरा नं. 107, प्रथम तल, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली DP/5660/RD/2023

भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड (CIN No: L74899HR1972PLC006203) पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 5, सेक्टर 25, बल्लभगढ़, हरियाणा- 121004

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का सार (ईपीएस को छोड़कर लाखों में

31.03.2023 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022

सं.	विवरण	को समाप्त तिमाही	को समाप्त तिमाही	को समाप्त वर्ष	को सम वर्ष
		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षि
1.	कुल आय	55.56	36.62	170.72	167.3
2.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों से पूर्व)	(70.57)	(96.27)	(261.44)	(300.2
3.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्धलाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(70.57)	(96.27)	(261.44)	(300.2
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्धलाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(65.77)	(91.68)	(242.23)	(281.8
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [कर के बाद लाभ/(हानि) को शामिल करके तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(63.25)	(95.57)	(239.71)	(279.5
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	231.30	231.30	231.30	231.3
7.	पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	-	_	186.67	434.4
8.	आय प्रति शेयर (10 रु. प्रति) जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए)				
	मूल:	(2.84)	(3.96)	(10.47)	(12.19
	तनुकृतः	(2.84)	(3.96)	(10.47)	(12.19

33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण कंपनी की वेबसाईट (http://www.globalbol.com) और बीएसई लि की वेबसाईट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध हैं। हिते एवे कते निदेशकों का बोर्ड

एस के शर्मा, अध्यक्ष स्थानः कोलकाता (DIN:00041150) दिनांक: 30 मई, 202**3**

श्री अनिल संयाल (दिवालियापन प्रक्रिया में) संपत्ति की विक्री के लिए सूचना

तहत एक व्यक्ति)

दिवालियापन ट्रस्टी का कार्यालय: C-618, KLJ, नोएडा वन, B-8, सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बद्ध नगर-201309 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत संपत्ति की बिक्री आवेदन करने और दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि: 16.06.2023

योग्य बोलीदाता की घोषणा की अंतिम तिथि: 18.06.2023 **नीलामी के तहत संपत्तियों के निरीक्षण, उचित निरंतर अंतिम तिथि: 25.06.2023** ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 16.06.2023 ई नीलामी की तिथि एवं समय: 27.06.2023, प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक। (प्रत्येक ५ मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानुन न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त बैंकरप्सी ट्रस्टी द्वारा बैंकरप्सी एस्टेट का हिस्सा बनने वाले श्री अनिल स्याल (दिवालियापन प्रक्रिया में) की संपत्ति की बिकी। बिक्री अधोहरताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://nbid.nesl.co.in/app/login के माध्यम से

बिक्री के लिए आस्तियों और संपत्तियों का मूल विवरण:

संपत्ति का प्रकार	स्थान/पता/क्षेत्र	संपत्ति का समूह /ब्लॉक	आरक्षित मूल्य /ईएमडी (INR)	न्यूनतम वृद्धिशील मूल्य
	दिवालिया का 50% हिस्सा, पहली मंजिल 117, उदय पार्क, नई दिल्ली-110049 में स्थित संपत्ति भूमि		आरक्षित मूल्यः ९०,७२,१६१/-	
	क्षेत्र पर निर्मित: 180 वर्ग मीटर जिसमें तीन बेडरेंम (संलग्न बाथरूम के साथ), ड्राइंग / ड्राइनिंग और किचन, एक कार पार्किंग, सर्वेट क्वार्टर शामिल हैं।		ईएमडी: 9,07,216/-	

है। उक्त संपत्ति अर्थात बिल्डर फ्लोर को मूल्यांकक द्वारा अविभाज्य के रूप में सूचित किया गया है। ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें और कॉपॉरेंट ऋणी की संपत्ति का विवरण वेबसाइट यांनी https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/ पर अपलोह किए गए 'ई-नीलामी प्रक्रिया कोई भी गंभीर और इच्छ्क बोलीदाता जांच कर सकता है और इसके लिए बोली जमा कर सकता है।

ई-नीलामी एजेंसी (एनईएसएल) की ओर से संपर्क व्यक्ति : श्री अरवेंथन एस ईमेल: araventhanse@nesl.co.in; मोबाइल नं.: +91 93846 76709 वेंकरप्सी ट्रस्टी की ओर से संपर्क व्यक्ति: आयुष मित्तल, ईमेल आईडी: bt.anilsyal@gmail.com दुरभाष संख्या, मोबाइल नंबर: +91 9999720980

दिवालियापन द्रस्टी श्री अनिल स्याल की दिवालियापन प्रक्रिया में IBBI पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304 पताः ७-ए, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, पाँकेट-बी, नई दिल्ली-११००१४ ईमेल: ajaygupta1969@gmail.com; bt.anilsyal@gmail.com; दिनांक: 02.06.2023 स्थान : नई दिल्ली मोवाइल : 09871277445

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक) रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड्, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत मांग सुचना पत्र

कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम	-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं	प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गर त तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीय i लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें
सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विद	हय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्त! 1म ३ (५) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के अनु:	के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के वि- रित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किर सार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सर्ग पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।
ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
ट्रव्हेंकर्ता /गाएन्टर का नाम (खाता सं.) L9001060714023061 नन्द किशोर (ऋणी), रजनी (सह-ऋणी), श्रीमती कृष्णा देवी (सह-ऋणी)	03 मई 2023 ₹ 764078/- रु. सात लाख चौंसठ हजार अठहत्तर मात्र विनांक 03 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित 564 ए, केएच नं. 273, गली नं. 4, सैन विहार, डूंडाजियाबादहेड़ा, परगना लोनी, तह. व जिल गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 75 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060116895151 नरेन्द्र फैशन हाउस जरिए प्रोपराइटर नरेन्द्र कुमार वर्मा (ऋणी), नरेन्द्र कुमार वर्मा (सह-ऋणी), श्रीमती नीरु वर्मा (सह-ऋणी), विशाल वर्मा (सह-ऋणी)	08 मई 2023 ₹ 1784412/- रु. सन्नह लाख चौरासी हजार चार सौ बारह मात्र दिनांक 06 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 4560, दुसरी मंजिल उत्तर-पश्चिम हिस्से के बीच, कच्चा बिबि गोहर, चरसे याला, दिल्ली क्षेत्रफल 105 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060117959957 आर खन्ना एन्टरप्राइजेज (ऋणी), सौरभ खन्ना (सह-ऋणी), श्रीमती पूजा खन्ना (सह-ऋणी)	08 मई 2023 ₹ 3422983/- रु. चाँतीस लाख बाइस हजार नो सौ तिरासी मात्र दिनांक 06 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राउण्ड फ्लोर बिना छत अधिकार के, प्लॉट नं. 21, केएच नं. 463, 464, 468, 489, 490, 491, 494, विद्या विहार, नासिकपुर, तह. व जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 138 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060100740657 राजीव सिंघल (ऋणी), श्रीमती अनुजा सिंघल (सह-ऋणी), श्रीमती सरोज देवी सिंघल (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 1254700/- रु. बारह लाख चौवन हजार सात सौ मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड कॉमर्शियल निर्मित दो साईड खुला (कॉर्नर) शॉप नं. 5 (प्राइवेट) एरिया क्षेत्र 15'x12 ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित उत्तरी हिस्सा बिना छत अधिकार के सम्पत्ति नं. सी3/19 स्थित राणा प्रताप वा दिल्ली क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट
(खाता सं.) L9001060100605761 बृज पाल (ऋणी), श्रीमती सुशीला (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 669811/- रु. छः लाख उनहत्तर हजार आठ सौ ग्यारह मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति रियत प्लॉट नं. 22, केएच नं. 512, ब्लॉक नं. ई लोनी, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 152 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060113123643 यामीन (ऋणी), श्रीमती बातो (सह-ऋणी), नदीम (सह-ऋणी), युसुफ (सह-ऋणी)	17 मई 2023 र 971288/- रु. नो लाख इकहत्तर हजार दो सौ अठ्यासी मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 25, खसरा नं. 712, गांव असलपुर, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 107 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060119124755 & L9001061122203946 यासीन (ऋणी), इकबाल अहमद (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 2108811/- रु. इक्कीस लाख आठ हजार आठ सौ ग्यारह मात्र व ₹ 311224/- रु. तीन लाख ग्यारह हजार दो सौ चौबीस मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित बी-116, पार्ट हाई सेकण्ड फ्लोर, शालीमार गार्डन मैन, गांव - पसाँडा परगना लोनी तहसील - जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 104.51 वर्ग मीटर
(खाता सं.) L9001060819637466 मोहम्मद इनाम (ऋणी), श्रीमती रजिया वेगम (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 1412257/- रु. चौदह लाख बारह हजार दो सौ सतावन मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपलिका सीमा मेट्रो व शहरी सम्पत्ति नं. यू-182, खसरा नं. 705, अरविंद मोहल्ला, गांव - गोण्डा गुजरन खादर, गली नं. 7, गौतम विहार, इलाका, शाहदरा, पूर्व दिल्ली, दिल्ली क्षेत्रफल 20 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001061121294062 मोहम्मद इनाम (ऋणी), श्रीमती रजिया बेगम (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 315674/- रु. तीन लाख पंद्रह हजार छः सौ चौहत्तर मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित यू 182, केएच नं. 705, गली नं. 7, अरविंद मोहल्ला, गोतम विहार, इलाका - शाहदरा, पू दिल्ली क्षेत्रफल 20 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060116214260 मोहम्मद इनाम (ऋणी), श्रीमती रजिया बेगम (सह-ऋणी)	17 मई 2023 र 1017914/- रु. दस लाख सत्रह हजार नो सौ चौदह मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा के भीतर केएच 705, खसरा नं. 705, गांव घोंडा, पूर्व दिल्ली क्षेत्रफल 30 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060116239406 परवेश (ऋणी), जगदिश प्रसाद शर्मा (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 929276/- रु. नो लाख उनतीस हजार दो सौ छिहत्तर मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित एफ खसरा नं. 1116 राज गांव - होजिपु परगना लोनी, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 75 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001061124301757 परवेश (ऋणी), जगदिश प्रसाद शर्मा (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 168347/- रु. एक लाख अडसठ हजार तीन सौ सँतालीस मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित 34/25डी पूर्व वावरपुर, उत्तर प्रदेश 201102 क्षेत्रफल 75 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060118769555 & L9001061121386616 वषु सखी कलेक्सन जरिए प्रोपराइटर पियुश जोशी (ऋ णी), पियुश जोशी (सह-ऋणी), मोहित (सह-ऋणी), श्रीमती हेमा देवी (सह-ऋणी)	17 मई 2023 रै 1751436/- रु. सत्रह लाख इक्यावन हजार चार सौ छत्तीस मात्र व रै 219100/- रु. दो लाख उन्नीस हजार एक सौ मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी सम्पत्ति नं. 3856, तीसरी मंजिल बिना छत अधिकार के, चरखेवाला, चावरी बाजार, उत्तर दिल्ली दिल्ली क्षेत्रफल 50.81 वर्ग मीटर
(खाता सं.) L9001070121464531 सोनू खान (ऋणी), श्रीमती संजिदा (सह-ऋणी)	17 मई 2023 र 983950/- रु. नो लाख तिरासी हजार नो सौ पचास मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति रिथत फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा के भीतर सम्पत्ति नं. 145/54 फ्लेट नं. एस3 दुसरी मंजिल केए नं. 867/2, 868, 869 शिव मंदिर मार्ग कृष्णा पुरी पूर्व दिल्ली आरएचएस गली नं. 1, शाहदरा, दिल्ली क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट
(खाता सं.) L9001060122704828 अमन शर्मा (ऋणी), श्रीमती सुशमा शर्मा (सह-ऋणी) जमानतदार : हेमंत शर्मा	17 मई 2023 ₹ 1441894/- रु. चौदह लाख इकतालीस हजार आठ सौ चौरानवे मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी 11/6-ए 198 आनन्द मार्ग छाजुपुर उत्तर दिर्ल क्षेत्रफल 45 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060721517620 अजय सनिटेशन (ऋणी), अजय कुमार रावत (सह-ऋणी), श्रीमती मेनका रावत (सह-ऋणी)	17 मई 2023 र 2356554/- रु. तेइस लाख छप्पन हजार पांच सौ चौवन मात्र दिनांक 15 मई 2023	(1) सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो शहरी 3379 दुसरी शॉप नं. 6 7 सीताराम बाजार सेंट्रव दिल्ली क्षेत्रफल 30 वर्ग गज (2) सम्पत्ति स्थित 3379 एक शॉप गली तबेला प्रसाद सीता राम दिल्ली क्षेत्रफल 7.66 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060121973060 रविन्द्र (ऋणी), श्रीमती ललीता (सह-ऋणी), हरी राज (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 549950/- रु. पांच लाख उनचास हजार नो सौ पचास मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा अर्द्धशहर व ग्रामीण 697, नूर नगर, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 107 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060825971260 रविन्द (ऋणी), हरी राज (सह-ऋणी), श्रीमती ललीता (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 594884/- रु. पांच लाख चौरानवे हजार आठ सौ चौरासी मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्डक - नगरपालिका सीमा के भीतर, मकान नं. 115, नूर नगर शिहानी गाजियाबाद जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 1076 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060124018295 संदीप कुमार बारद्वाज (ऋणी), गंगा शरण शर्मा (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 2256642/- रु. बाइस लाख छप्पन हजार छः सौ बयालीस मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शह सम्पत्ति नं. 1564, दुसरी मंजिल बिना छत अधिकार के, केएच नं. 367/350, तुला नगर, कोटला मुवारक पुर, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली क्षेत्रफल 65 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060122758104 विनोद यादव (ऋणी), धर्मवीर (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 1481189/-	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी २७ चाप्परोला गाजियाबाद दादरी, जिला -

	मात्र दिनांक १५ मई २०२३	दिल्ली आरएचएस गली नं. 1, शाहदरा, दिल्ली श्रेत्रफल 450 वर्ग फीट
(खाता सं.) L9001060122704828 अमन शर्मा (ऋणी), श्रीमती सुशमा शर्मा (सह-ऋणी) जमानतदार : हेमंत शर्मा	17 मई 2023 ₹ 1441894/- रु. चौदह लाख इकतालीस हजार आठ सौ चौरानवे मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी 11/6-ए 198 आनन्द मार्ग छाजुपुर उत्तर दिल्ली क्षेत्रफल 45 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060721517620 अजय सनिटेशन (ऋणी), अजय कुमार रावत (सह-ऋणी), श्रीमती मेनका रावत (सह-ऋणी)	17 मई 2023 र 2356554/- रु. तेइस लाख छप्पन हजार पांच सौ चौवन मात्र दिनांक 15 मई 2023	(1) सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी 3379 दुसरी शॉप नं. 6 7 सीताराम बाजार सेंट्रल दिल्ली क्षेत्रफल 30 वर्ग गज (2) सम्पत्ति स्थित 3379 एक शॉप गली तबेला प्रसाद सीता राम दिल्ली क्षेत्रफल 7.66 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060121973060 रविन्द्र (ऋणी), श्रीमती ललीता (सह-ऋणी), हरी राज (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 549950/- रु, पांच लाख उनचास हजार नो सौ पचास मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा अर्द्धशहरी व ग्रामीण 697, नूर नगर, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 107 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060825971260 रविन्द्र (ऋणी), हरी राज (सह-ऋणी), श्रीमती ललीता (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 594884/- रु, पांच लाख चौरानवे हजार आठ सौ चौरासी मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्डक - नगरपालिका सीमा के भीतर, मकान नं. 115, नूर नगर शिहानी गाजियाबाद, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 1076 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060124018295 संदीप कुमार बारद्वाज (ऋणी), गंगा शरण शर्मा (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 2256642/- रु. बाइस लाख छप्पन हजार छः सी बयालीस मात्र दिनांक 15 मई 2023	सन्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी सम्पत्ति नं. 1564, दुसरी मंजिल बिना छत अधिकार के, केएच नं. 367/350, तुला नगर, कोटला मुबारक पुर, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली क्षेत्रफल 65 वर्ग ग ज
(खाता सं.) L9001060122758104 विनोद यादव (ऋणी), धर्मवीर (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 1481189/- रु. चीदह लाख इक्यासी हजार एक सी नवासी मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी 27 चाप्परोला गाजियाबाद दादरी, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 80 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060123393480 प्रशांत शर्मा (ऋणी), श्रीमती उपा शर्मा (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 643758/- रु. छः लाख तैयालीस हजार सात सौ अठावन मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी बुलना, गाजियाबाद हापुर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 33.3 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060826693243 प्रशांत शर्मा (ऋणी), एजे कलेक्शन (सह-ऋणी), श्रीमती उषा शर्मा (सह-ऋणी)	17 मई 2023 र 692820/- रु. छः लाख बानबे हजार आठ सौ बीस मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा के मीतर गांव ककराना धौलना गाजियाबाद हापुर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 899.91 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060723409182 ओम टिम्बर ट्रेडर्स (ऋणी), रजनीश कुमार (सह-ऋणी), श्रीमती बबीता (सह-ऋणी)	17 मई 2023 रैं 1806773/- रु. अठारह लाख छः हजार सात सौ तिहत्तर मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी 2004 न्यू पन्ना पुरी गाजियाबाद हापुर, उत्तर प्रदेश बेत्रफल 129 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060827533723 ओम टिम्बर ट्रेडर्स (ऋणी), रजनीश कुमार (सह-ऋणी), श्रीमती ववीता (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 244547/- रु. दो लाख चौवालीस हजार पांच सौ सैतालीस मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा ग्रह रोड टॉल टेक्स के पास गांव पाटना हापुर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 1158.7 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060123862446 राहुल रावल (ऋणी), श्रीमती राकंश देवी (सह-ऋणी), मलजीत (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 1315496/- रु. तेरह लाख पंद्रह हजार चार सौ छियानवे मात्र दिनांक 15 मई 2023	सम्पत्ति स्थित खाता नं. 00075, खेत नं. 267, सुरजपुर परगना दादरी, तहसील व जिला - गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 200 वर्ग गज

सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व 17 मई 2023 ₹ 1510910/-शहरी विस्वा 13 विस्वानी 1 3 खसरा नं. 127, मिन रु. पंद्रह लाख दस हजार नो सौ दस मात्र धंकुर, जिला - गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल** दिनांक 15 मई 2023 750 वर्ग गज

क्षेत्रफल 50 वर्ग गज

खसरा नं. 1441 1 4 वाका माँजा बसीलवा कॉलोनी,

फरीदाबाद, जिला - फरीदाबाद, हरियाणा **क्षेत्रफल 50**

सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा के बाहर 17 मई 2023 ₹ 1263378/-राजपुर कालन गुरुकुल सिकन्दराबाद, जिला -रु. बारह लाख तरेसठ हजार तीन सौ गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 1106.54 वर्ग अठहत्तर मात्र दिनांक 15 मई 2023 सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व 19 मई 2023

शहरी 406, पिपलाबंदपुर, गाजियाबाद, धालना, उत्तर सौरम (ऋणी), ईश्वर (सह-ऋणी), श्रीमती पूनम ₹ 1119893/-रु. ग्यारह लाख उन्नीस हजार आठ सौ प्रदेश क्षेत्रफल 143 वर्ग गज तिरानबे मात्र दिनांक 18 मई 2023 सम्पत्ति रिथत फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा के भीतर 08 मई 2023 ₹ 2135906/-

खाता सं.) L9001060116692269 वन्द्र शेखर(ऋणी), श्रीमती रतन वती (सह-ऋणी), सेक्टर 8, चौधरी मोहल्ला फरीदाबाद, बल्लभगढ, रु. इक्कीस लाख पँतीस हजार नो सौ छः जिला - फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 180 वर्ग गज मात्र दिनांक ०६ मई २०२३ खाता सं.) L9001060100903811 17 मई 2023 **इर्शाद (ऋणी**), इलियास खान (सह-ऋणी), श्रीमती

सम्पत्ति स्थित मिन नं. 100, किला नं. ७, खाता नं. ₹ 307182/-226/391, मकान नं. बीसी-385, वार्ड नं. 18, गांव -रु. तीन लाख सात हजार एक सौ बयासी बदखाल, जिला - फरीदाबाद, हरियाणा **क्षेत्रफल 66.**.

मात्र विनांक 15 मई 2023 00 वर्ग गज सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा के भीतर

खाता सं.) L9001060714180157 17 मई 2023 **गजराज (ऋणी**), श्रीमती उर्मिला (सह-ऋणी) ₹ 2023096/-332 ऑब्लिक 243 68 ऑब्लिक 9 ऑब्लिक 2 वाका रु. बीस लाख तेइस हजार छियानवे मात्र मौजी गुंची फरीदाबाद बल्लभगढ़, हरियाणा **क्षेत्रफल** दिनांक 15 मई 2023 226 वर्ग फीट

खाता सं.) L9001061121891468 17 मई 2023 सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेटो व गजराज (ऋणी), श्रीमती उर्मिला (सह-ऋणी) शहरी एच नं. 332 68/9/2 फरीदाबाद, बल्लभगढ, ₹ 276948/-रु, दो लाख छिहत्तर हजार नो सौ हरियाणा बेन्नफल 226 वर्ग फीट अडतालीस मात्र दिनांक 15 मई 2023

खाता सं.) L9001061124276307 सम्पत्ति स्थित मकान नं. ६८-ए गली नं. १०, सूर्या 17 मई 2023 अमर सिंह (ऋणी), श्रीमती स्वीटी देवी (सह-ऋणी), कॉलोनी, सेहतपुर चेतन मार्केट, जिला - फरीदाबाद, ₹ 161879/-चन्द्र पाल सिंह (सह-ऋणी), श्रीमती इन्द्रा वती रु. एक लाख इकसट हजार आठ सी उनासी हरियाणा, 121003 क्षेत्रफल 50 वर्ग गज मात्र दिनांक 15 मई 2023 (सह-ऋणी) सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व

खाता सं.) L9001060819691120 17 मई 2023 ए एस पावर सोल्यूशन(ऋणी), अमर सिंह शहरी मुम नं. 13 17 किला नं. 25 2 सेहतपुर ₹ 772578/-रु. सात लाख बहत्तर हजार पांच सौ अठहत्तर फरीदाबाद, जिला - फरीदाबाद, हरियाणा **क्षेत्रफल 50** (सह-ऋणी), श्रीमती इन्द्रा वती (सह-ऋणी), चन्द्र मात्र दिनांक १५ मई २०२३

पाल सिंह (सह-ऋणी) (खाता सं.) L9001061124276377 17 मई 2023 सम्पत्ति स्थित एच नं. 68ए, चेतन मार्केट गली नं. 10, सूर्या कॉलोनी, सेहतपुर, जिला - फरीदाबाद, हरियाणा

ए एस पावर सोल्यूशन(ऋणी), श्रीमती इन्दा वती ₹ 151444/-रु. एक लाख इक्यावन हजार चार सौ (सह-ऋणी), अमर सिंह (सह-ऋणी), चन्द्र पाल चौवालीस मात्र दिनांक 15 मई 2023 सिंह (सह-ऋणी) खाता सं.) L9001060122721893 17 मई 2023 द फिटनिस क्लब एन्टरप्राइजेज (ऋणी), धीरज ₹ 986210/-

खाता सं.) L9001060124108046

(सह-ऋणी), प्रकाश चन्द (सह-ऋणी)

खाता सं.) L9001060127775829

खाता सं.) L9001060721431406

गजेन्द्र सिंह (सह-ऋणी)

मकसुदन खान (सह-ऋणी)

सुरेन्द्र कुमार (सह-ऋणी), राजेन्द्र कुमार

सह-ऋणी)

अजय गुप्ता

ग्नोज भाटी (ऋणी), श्रीमती सरोज देवी

विजयपाल (ऋणी), सियाराम (सह-ऋणी), बाला

(सह-ऋणी), जीता (सह-ऋणी), विमल जीत सिंह

सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा अर्द शहरी व ग्रामीण खाता नं. 819 वार्ड नं. 05, शिव रु. नो लाख छियासी हजार दो सौ दस मात्र (सह-ऋणी), श्रीमती लक्ष्मी देवी (सह-ऋणी), हरी कॉलोनी, गुडगांव सोहना, हरियाणा **क्षेत्रफल 107 वर्ग** दिनांक 15 मई 2023 चन्द (सह-ऋणी) खाता सं.) L9001060124015489 17 मई 2023 सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा अर्द्ध **राहुल कुमार (ऋणी**), जितेन्द्र कुमार (सह-ऋणी), शहरी व ग्रामीण मकान नं. 104 अरजी खेवत नं. 2 ₹ 904083/-

स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिनांकः 01-06-2023

रु. नो लाख चार हजार तिरासी मात्र दिनांक

15 मई 2023

www.readwhere.com